

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, रोजर्स के डाउनटाउन रीलोकेशन और प्रस्तावित 100 मिलियन डॉलर के निवेश की हिमायत कर रही है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (27 जनवरी, 2022) – कल अपनी मीटिंग में, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) ने रोजर्स कम्युनिकेशन्स (Rogers Communications) के, डाउनटाउन ब्रैम्पटन (Downtown Brampton) में रीलोकेशन (स्थानांतरण) की हिमायत के लिए एक सिफारिश को मंजूरी दी।

प्रस्तावित नए विकास के द्वारा, 3,000 कर्मचारियों को डाउनटाउन में, 200,000 सक्वेयर फुट की जगह में स्थानांतरित किया जाएगा। नए कैम्पस में, मिक्सड ऑफिस और रिटेल स्पेस होगा और फेजेस में शामिल किए जाने वाले अतिरिक्त ऑफिसिज के लिए जगह होगी।

यह कार्यनीतिक जगह और निवेश, जोशीली ट्रांज़िट-अनुकूलित कम्युनिटी को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही यह, प्रतिभावान व्यक्तियों के लिए रोजर्स (Rogers) और ब्रैम्पटन, दोनों तक पहुंच को बढ़ाते हुए, कैंनेडा के इनोवेशन कॉरिडोर (Innovation Corridor) के केंद्र में, नया रोजर्स ब्रैम्पटन (Rogers Brampton) ऑफिस स्थापित करने में मदद करेगा। इसके अलावा, रोजर्स ब्रैम्पटन कैम्पस (Rogers Brampton Campus) से इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट (Innovation District) में, साइबरसिक्योरिटी (Cybersecurity) यूनिट का रीलोकेशन, सिटी की पोजीशन, साइबरसिक्योरिटी में राष्ट्रीय लीडर के तौर पर बनाएगा और उसे मज़बूत करेगा।

हवाले

“मैं, डाउनटाउन ब्रैम्पटन में रोजर्स के इस प्रस्तावित रीलोकेशन का स्वागत करने के लिए बेहद उत्साहित हूँ, जो जारी रोमांचक परिवर्तन और सिटी के द्वारा किए गए हाल ही के निवेशों पर आधारित है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि ब्रैम्पटन, हमारे कारोबारियों के लिए स्वागत करने वाला घर बना रहे। हमारी काउंसिल और स्टाफ, इस नए विकास की हिमायत के लिए, लगातार हमारे सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। शहर के केंद्र में एक नई रोजर्स साइट, कैंनेडा के इनोवेशन कॉरिडोर पर हमारी पोजीशन को और मज़बूत करेगी और साइबरसिक्योरिटी में हमें राष्ट्रीय लीडर के तौर पर स्थापित करेगी। मैं अगले रोमांचक कदमों के लिए उत्साहित हूँ!”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी, लोगों, पोस्ट-सेकंडरी उद्देश्यों और इनोवेशन तथा टेक्नोलॉजी को आकर्षित करने पर केंद्रित दृष्टिकोण के साथ, डाउनटाउन ब्रैम्पटन में परिवर्तन करने के लिए अपने प्रयासों में काफी प्रगति कर रही है। नए रोजर्स कम्युनिकेशन्स ऑफिस के विकास और 3,000 कर्मचारियों के रीलोकेशन के द्वारा, यह कैम्पस, डाउनटाउन के लंबी-अवधि के पुनर्निर्माण और आर्थिक सफलता में मदद करेगा। हम

इस रोमांचक प्रोजेक्ट और हमारे निवासियों, कारोबारियों तथा लोकल स्ट्रेकहोल्डर्स के लिए शहर के केंद्र को बढ़ाने पर लगातार योजना बनाने के लिए उत्साहित हैं।”

- *पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; चेयर, पब्लिक वर्क्स एंड इंजीनियरिंग, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“रोजर्स द्वारा यह प्रस्तावित रीलोकेशन, हमारी सिटी के डाउनटाउन में जारी परिवर्तनशील काम और कार्यनीतिक निवेशों का साक्षी है। इस नए मिक्सड-प्रयोग वाले विकास की हिमायत करके, हम हमारे निवासियों और कारोबार कम्युनिटी के लिए, अधिक शानदार और लंबी-अवधि के अवसर पैदा कर रहे हैं। मुझे इस विकास की हिमायत करने पर खुशी है, जो हमारे शहर के लिए एक जोशीला और स्थिर डाउनटाउन बनाने में मदद करेगा।”

- *मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4, चेयर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“कार्यनीतिक निवेशों और प्लानिंग के द्वारा, हम हमारे साझेदारों और हमारी कारोबार कम्युनिटी को संकेत दे रहे हैं कि हम स्मार्ट, स्थिर और सफल वृद्धि करने को लेकर गंभीर हैं। हमें बेहद खुशी है कि रोजर्स इसे समझता है और हमारे डाउनटाउन में जारी परिवर्तनशील कार्य के साथ जुड़ रहा है। इस नए विकास के द्वारा, हम नौकरियां पैदा करेंगे, हमारी आर्थिक बहाली और वृद्धि में सहायता करेंगे तथा ब्रैम्पटन के निवासियों के लिए, जीवन क्वालिटी में सुधार करेंगे।”

- *डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया
multiculturalmedia@brampton.ca